



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

No. 288]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2004/अग्राहायण 19, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2004/AGRAHAYANA 19, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2004

सं. 30/2004—2009

फा. सं. 01/87/171/00002/एम04/डीईएस. VIII.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 2002—2007 में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन/शुद्धिकरण और परिवर्धन करते हैं।

2. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-2) 2002—2007 में यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ/विलोपन किए जाएंगे।

3. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे :—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं क 3470 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार क्रम सं. क 3471 से क 3490 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं अ 362 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ग' के अनुसार क्रम सं. अ 363 से अ 368 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

क्रम सं. ट 168 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'घ' के अनुसार क्रम सं. ट 169 से ट 170 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## अनुलग्नक 'क'

संशोधन/शुद्धियाँ

क्रमांक	पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4
1	164-165	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 1324	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1324	डाइमेथिल सल्फेट	1 किग्रा.	1. मेथेनाल 2. सल्फर अथवा येलो क्रूड सल्फर (नमी का अंश 3 % अधिकतम कार्बन 0.5% अधिकतम और राख का अंश 0.03 % अधिकतम) 3. एल्यूमिना उत्प्रेरक	0.561 किग्रा. 0.279 किग्रा.    0.0002 किग्रा.

2	210	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 1699	क्रम सं० 1 और 2 पर आयात मद के ब्यौरे (मात्रा में बिना परिवर्तन के) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-  “1. सम्बद्ध हीट रेसिस्टेंट रबर श्रेड/स्पेंडेक्स यार्न/लिक्रा एलास्टिक श्रेड 2. पालीएस्टर यार्न/नायलन यार्न/कॉटन यार्न/स्पन पालीएमाईड यार्न”
---	-----	--	--

3	17	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 3010 (सार्वजनिक सूचना सं० 27 दिनांक 01/8/2002 द्वारा संशोधित)	क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण में निम्नलिखित वैकल्पिक आयात मद(मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- “1. ग्लाइआक्सलिक एसिड (50%) - 2.53 किग्रा. 1.क) ग्लाइ आक्साल (40%) - 3.54 किग्रा. 1.ख) नाइट्रिक एसिड (50%) - 2.15 किग्रा. 1.ग) हाइड्रोक्लोरिक एसिड (30%)”- 5.24 किग्रा.
---	----	--	---

4	17	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 3011 (सार्वजनिक सूचना सं० 27 दिनांक 01/8/2002 द्वारा संशोधित)	क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण में निम्नलिखित वैकल्पिक आयात मदों(मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- “1. ग्लाइआक्सलिक एसिड (50%) - 1.54 किग्रा. 1.क) ग्लाइ आक्साल (40%) - 2.16 किग्रा. 1.ख) नाइट्रिक एसिड (50%) - 1.32 किग्रा. 1.ग) हाइड्रोक्लोरिक एसिड (30%)”- 3.18 किग्रा.
---	----	--	--

5	18	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 3280 (सार्वजनिक सूचना सं० 38 दिनांक 9.01.2004 द्वारा संशोधित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	----	--	---

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 3280	ओरिजलिन टेक्निकल 98 प्रतिशत न्यूनतम	1 किग्रा.	1. पोटैशियम-4-क्लोरो 3,5 नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेट  2. डाई-एन-प्रोपिल एमाईन  3. थियोनिल क्लोराईड  4. डाइमेथिल फार्मामाईड  5. बेंजीन	1.340 किग्रा.  0.490 किग्रा.  0.720 किग्रा.  0.088 किग्रा.  2.000 किग्रा.

6	25	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 3414 (सार्वजनिक सूचना सं० 11 दिनांक 01/10/2004 द्वारा संशोधित)	क्रम सं० 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित कर निम्नलिखित तरह से पढ़ा जाएगा :-  “1. निकल मेटल - 0.0625 किग्रा०”
---	----	---	---

7	907	खाद्य उत्पाद क्रम सं० ड. - 1	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
---	-----	---------------------------------	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ड. 1	एसोर्टेड कन्फेक्शनरी	100 किग्रा.	1(क) चीनी अथवा *(ख) स्टार्च/संशोधित स्टार्च/गेलेटिन 2. इन्टेन्स स्वीटनर्स* निम्नलिखित में से कोई एक :	66 किग्रा.  66 किग्रा.

			i) सैकरीन सोडियम अथवा ii) एस्परेटेम (मिथाइल ईस्टर) अथवा iii) एसीसलफेम पोटैशियम 3. तरल ग्लूकोस 4. साइट्रिक एसिड 5.i) फ्लेवर्स/आवश्यक तेल ii) खाद्य रंग 6. इमल्सीफायर्स/ ग्लेजिंग एजेण्ट्स/ बाइन्डर्स/थिकनर्स 7. पैकिंग सामग्री क. बीओपीपी/एचडी पीई/पीपी/एलडीपीई ख. पेपर/पेपर बोर्ड	300 ग्राम 1 किग्रा. 350 ग्राम 28 किग्रा. 3 किग्रा. 500 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम पैकिंग नीति के अनुसार
--	--	--	--	---

टिप्पणी : \* सिर्फ सुगर फ्री कन्फेक्शनरी के लिए 1(ग) और स्टीटनर्स की अनुमति होगी। शुगर फ्री कन्फेक्शनरी के विनिर्माण के आयात के लिए मद 1(क) और 1 (ख) की अनुमति नहीं होगी।

8	907	खाद्य उत्पाद क्रम सं0 ड. - 5	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
---	-----	---------------------------------	---

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ड.5	बिस्कुट	1 किग्रा.	1. मैदा/आटा/फ्लोर 2. चीनी अथवा तरल चीनी 3. वेजीटेबल्स शार्टेनिंगस/ क्रीम/फैट/ स्प्रे फैट 4. स्किम्ड मिल्क पाउडर एडिटिव्स और अन्य बेकरी संघटक 5. एडिटिव्स और अन्य बेकरी संघटक :- क) इन्वर्ट शुगर/तरल ग्लूकोज ख) लेवनिंग एजेण्ट ग) इमल्सीफायर घ) खाद्य फ्लेवर ड.) मेवे * (वैकल्पिक) 6. पैकिंग सामग्री :- (क) बीओपीपी/एचडी पी ई/पीपी/एलडीपीई (ख) पेपर और पेपर बोर्ड	0.550 किग्रा. 0.210 किग्रा. 0.338 किग्रा. 0.180 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.040 किग्रा. 0.015 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.002 किग्रा. भार से 3% पैकिंग नीति के अनुसार पैकिंग नीति के अनुसार

टिप्पणी : \*कुछ खास किस्म के लिए निर्यात दायित्व सहित भार के 3 प्रतिशत मेवे (वैकल्पिक) की भी अनुमति होगी।

9	933	चमड़ा उत्पाद क्रम सं० छ-12	निर्यात उत्पाद के विवरण को ( मात्रा में परिवर्तन किए बिना) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “ पी.यू. सोल/स्बर सोल/पीवीसी सोल/यूनिट सोल सहित जेण्ट्स लेदर सैण्डल्स”
10.	30-31	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं० ज-15 (सार्वजनिक सूचना सं० 03 दिनांक 31.3.2003 द्वारा संशोधित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज-15	एडिटिव मास्टर बैचेज	1 किग्रा.	1. पालीएथिलीन, पालीप्रोपिलीन पालीस्ट्रीन, पालीएस्टर (पी ई टी/पी बी टी) ई वी ए जैसे सम्बद्ध पालीमर्स 2. सम्बद्ध एडिटिव अर्थात् क) यू वी स्टैबलाइजर ख) एण्टीब्लाक एजेण्ट ग) एण्टीस्टैटिक एजेण्ट घ) स्लिप एजेण्ट ड.) एण्टी आक्सीडेंट	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश  निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश

टिप्पणी : आयात मद सं० 2 पर उल्लिखित एडिटिव निर्यात के 20 प्रतिशत (भार से) से अधिक नहीं होगी और निर्यात उत्पाद में केवल सम्बद्ध एडिटिव जैसा अपेक्षित/प्रयुक्त हो, की अनुमति आयात के लिए दी जाएगी।

11.	963	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं० ज-16	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को हटा दिया गया है।
-----	-----	-----------------------------------	--

12.	31	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं० ज-54 (सार्वजनिक सूचना सं० 03 दिनांक 31.3.2003 द्वारा संशोधित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
-----	----	---	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज- 54	कलर मास्टर बैचेज	1 किग्रा.	1. पालीइथिलीन, पालीप्रापीलीन, पालीस्ट्रीन, पालीस्टर (पी ई टी/पी बी टी) ई वी ए जैसे संगत पालीमर्स	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश

			2. टाइटेनियम डाईआक्साइड 3. संगत कलर पिगमेन्ट/डाई 4. वैकल्पिक ब्राइटनर 5. संगत पी पी/पी ई/मांटेन वैक्स	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश
--	--	--	--	--

13.	1024- 1025	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं० ज-346	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को हटा दिया गया है।
-----	---------------	------------------------------------	--

14.	1057 - 1058	खेल का सामान क्रम सं० झ - 12	क्रम सं० 3 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।
15.	1060	खेल का सामान क्रम सं० झ - 30	क्रम सं० 1 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।
16.	1060	खेल का सामान क्रम सं० झ - 31	क्रम सं० 1 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।
17.	1061	खेल का सामान क्रम सं० झ - 32	क्रम सं० 1 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।
18.	1061	खेल का सामान क्रम सं० झ - 33	क्रम सं० 1 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।
19.	1062	खेल का सामान क्रम सं० झ - 34	क्रम सं० 1 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।
20.	27	खेल का सामान क्रम सं० झ - 49 ( सार्वजनिक सूचना सं० 66 दिनांक 4.3.2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं० 2 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।
21.	27	खेल का सामान क्रम सं० झ - 50 ( सार्वजनिक सूचना सं० 66 दिनांक 4.3.2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं० 2 (मात्रा सहित) के आयात मद को हटा दिया गया है।

## अनुलग्नक 'ख'

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्र.सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क3471	डाई कैल्शियम फास्फेट एनहाईड्रस	1 किग्रा	1. फास्फोरिक अम्ल 85 प्रतिशत	0.890 किग्रा
क3472	एमार्फस सेफूराक्जाइम एक्सेटिल	1 किग्रा	1. 7-एमिनो सीफैलोस्पोरैनिक अम्ल (7एसीए) 2. एक्टीवेटेड कार्बन 3. (जेड)-2 मीथाक्सीमिनो (फ्यूरिल-2-इल) एसिटिक अम्ल अमोनियम लवण 4. क्लोरो सल्फोनिल आइसोसाइनेट 5. डाईमेथिल फर्माइड (डीएमएफ) 6. तरल ब्रोमीन 7. टेट्राहाइड्रोफ्यूरान/ एसीटोनाइड्राइल 8. एसीटोन 9. आइसोप्रोपिल अल्कोहल 10. मेथिलीन क्लोराइड 11. साइक्लोहेक्सेन 12. ट्राइएथिलामाइन 13. टेट्रालीन 14. एन, एन-डाईमेथिल एसीटामाइड 15. डाईसाइक्लो हेक्सालामाइन 16. मीथेनाल 17. सोडियम डीथोनाइट 18. ऑक्सालिल क्लोराइड	1.20 किग्रा 0.100 किग्रा 0.96 किग्रा 0.66 किग्रा 0.41 किग्रा 1.422 किग्रा 1.56 किग्रा 2.256 किग्रा 0.40 किग्रा 3.25 किग्रा 2.57 किग्रा 0.96 किग्रा 0.49 किग्रा 1.79 किग्रा 0.44 किग्रा 3.69 किग्रा 0.0054 किग्रा 0.68 किग्रा
क3473	सोडियम साइनेट	1 किग्रा	1. सोडा ऐश	0.860 किग्रा
क3474	पिगमेंट थैलोसायानाइन ब्लू 15:3	1 किग्रा	1. थैलोसायानाइन ब्लू क्रूड (सी.आई.नं. 74160) (96 प्रतिशत न्यूनतम शुद्धता)	1.072 किग्रा

क3475	फीनोक्सी एसिटिक अम्ल	1 किग्रा	1. फीनोल 2. मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल 3. कास्टिक सोडा 4. सोडा एश	0.820 किग्रा 0.807 किग्रा 0.382 किग्रा 0.724 किग्रा
क3476	एन-मेथीलॉल	1 किग्रा	1. स्टीयरिक अम्ल (स्टीयरिक अम्ल कन्टेन्ट: 50+/-10 प्रतिशत) (स्टीयरिक अम्ल+पाल्मिटिक अम्ल कन्टेन्ट: 90 प्रतिशत न्यूनतम)	1.061 किग्रा
क3477	पिगमेंट रेड 48:3 (सी.आई.नं. 15865:3)	1 किग्रा	1. 2बी अम्ल 2. बान्ड अम्ल 3. सोडियम नाइट्राइट 4. कास्टिक सोडा	0.438 किग्रा 0.383 किग्रा 0.138 किग्रा 0.279 किग्रा
क3478	उष्मा रोधी लैटेक्स रबड़ धागा - रंगीन	1 मी. टन	1. शुष्क रबड़ लैटेक्स अथवा लैटेक्स रबड़ (60% डी आर सी नम) 2. रबड़ एक्सीलरेटर 2(i) जेएमबीटी 2(ii) हेप्टीन बेस 2(iii) जेडडीबीसी 3. एन्टिओजोनसेंट (i) एम सी वैक्स (ii) लोवीनोक्स 4. एन्टीआक्सीडेंट विगसटे एल/रोलोक्स एलसी/इर्गानोक्स 1010/पी-क्रेसोल और डाई साइक्लो पाउडर का ब्यूटीलेटेड अभिक्रिया उत्पाद 5. डिस्पर्जिंग एजेन्ट (सोडियम मीथालकजाथालेट) जल में घुलनशील 6. रबड़ पिगमेंट (फ्लूरेसेंट रंग) 7. टैल्कम पाउडर या सीलीकॉन एमल्सन (सीलीकॉन कोटेड उत्पाद के लिए) 8. बैक्टेरीसाइड (सोडियम ओ-फेनिल फीनोलिक)	818.68 किग्रा 1364.47 किग्रा 1.80 किग्रा 0.60 किग्रा 1.80 किग्रा 2.6 किग्रा 1.8 किग्रा 18.00 किग्रा 0.6 किग्रा 75.00 किग्रा 10 किग्रा 0.50 किग्रा



			9. स्टैबलाइजर (ओलेइक अम्ल) 10. फिलर (टाइटेनियम आक्साइड) 11. एक्टीवेटर (जिक आक्साइड) 12. नाइलॉन फिल्टर बैग - 50 माइक्रोन नाइलॉन फिल्टर बैग - 250 माइक्रोन नाइलॉन कपड़ा (82 x 85 सेंमी.) 13. कार्टन के लिए कागज 14. एमल्सीफायर (कार्बोक्सी मेथिल सेलूलोज) 15. कोआगुलेंट (एसिटिक अम्ल) 16. शुष्क क्लोरोप्रीन लैटेक्स या नम क्लोरोप्रीन लैटेक्स	6.00 किग्रा 55.00 किग्रा 24.86 किग्रा 4 नग 4 नग 8 नग पैकिंग नीति के अनुसार 0.06 किग्रा 160 किग्रा 98 किग्रा 163.38 किग्रा
क3479	इथाक्सीलेटेड लारिल अल्कोहल 2 मोल	1 किग्रा	1. क) लारिल अल्कोहल ख) एथीलीन आक्साइड	0.693 किग्रा 0.323 किग्रा
क3480	इथाक्सीलेटेड लारिल अल्कोहल 3 मोल	1 किग्रा	1. क) लारिल अल्कोहल ख) एथीलीन आक्साइड	0.569 किग्रा 0.419 किग्रा
क3481	पीवीसी स्टैबलाइजर पीए-804 (लीड कन्टेंट 38+/-1%) कन्टेनिंग: ट्राइबेसिक लीड सल्फेट 25+/-1% डाइबेसिक लीड स्टीयरेट मिश्रण 42+/-1% वैक्स 33+/-1%	1 किग्रा	1. लीड इन्गाट्स 2. स्टीयरिक अम्ल (स्टीयरिक अम्ल कन्टेंट 50+/-10%) स्टीयरिक अम्ल + पाल्मिटिक अम्ल कन्टेंट 90% न्यूनतम) 3. पैराफीन वैक्स	0.375 किग्रा 0.274 किग्रा 0.330 किग्रा
क3482	मेटा फेनीलीन डायामाइन	1 किग्रा	1. बेंजीन	1.100 किग्रा
क3483	स्टील के साथ कास्ट पालीयूरेथेन पहिये/कास्ट लौह कोर तथा बॉल बियरिंग (भार के अधिकतम पालीयूरेथेन कन्टेंट 25+/-1% तक)	1 नग	1. पॉलीयूरेथेन प्रीपॉलीमर 2. पालीऑल क्यूरिंग एजेंट 3. पॉलीयूरेथेन से धातु एडहेसिव 4. रंग पिगमेंट 5. संगत बाल बियरिंग	0.920 किग्रा 0.166 किग्रा 0.011 किग्रा 0.014 किग्रा निवल से निवल

क3484	बेंजाथाइन पेंसीलीन जी	1 किग्रा	1. पेंसीलीन जी पोटैशियम प्रथम क्रिस्टल 2. एन, एन, डाइबेंजिल एथीलीन डायामाइन डाइएसीटेट 3. सोयालेसीथिन 4. आइसोप्रोपिल अल्कोहल	1.262 बीओयू/किग्रा 0.388 किग्रा 0.058 किग्रा 1.942 किग्रा
क3485	8-क्लोरो-10,11 डिहाइड्रो-4-एजा-डाइबेंजो (ए, डी)- साइक्लोहेप्टॉन-5-एक	1 किग्रा	1. मेटा क्लोरो बेंजिल सायनाइड 2. मेथिल निकोटामाइड 3. हाइड्राजाइन हाइड्रेट 4. एन, एन-डाइमेथिल कार्बोमिल क्लोराइड 5. पोटैशियम कार्बोनेट 6. डाइमेथिल सल्फाक्साइड 7. डाइक्लोरो मीथेन	1.80 किग्रा 4.00 किग्रा 1.26 किग्रा 1.20 किग्रा 2.15 किग्रा 4.50 किग्रा 9.70 किग्रा
क3486	सीनेओल	1 किग्रा	1. यूकेलिप्टस तेल	1.30 किग्रा
क3487	(1,2 इथानडाइलबिस (आक्सी) बिस मीथेनाल)/1,6 डाइहाइड्रोक्सी डाइआक्साहेक्सेन	1 किग्रा	1. पैरा फार्मल्लिहाइड (92 प्रतिशत न्यूनतम)	0.543 किग्रा मी.
क3488	पैरासीटामॉल	1 किग्रा	1. पैरासीटामॉल 2. एसिटिक एनहाइड्राइड	0.77 किग्रा 0.72 किग्रा
क3489	सिन्थेटिक टैनिंग एजेंट (नीओ सिन 5डब्ल्यूबी) फार्मल्लिहाइड और यूरिया (53%) डाइसोडियम पैथालेट (12%) के साथ फीनॉल सल्फोनिक अम्ल पालीमर के सोडियम लवण सहित	1 किग्रा	1. फीनॉल	0.217 किग्रा मी.
क3490	एमीलोराईड हाइड्रोक्लोराइड बीपी/ यूएसपी	1 किग्रा	1. साइनोएसिटिक अम्ल 2. गुआनिडाइन एचसीएल 3. सोडियम डिटोनाइट 4. सोडियम मीथोक्साइड 5. ग्लाइआक्सल (40 प्रतिशत घोल) 6. डाइमेथिल फार्माइड 7. एसिटोनाइट्राइल 8. मीथेनॉल	2.10 किग्रा 0.40 किग्रा 3.43 किग्रा 0.22 किग्रा 1.83 किग्रा 2.23 किग्रा 0.77 किग्रा 2.25 किग्रा

## अनुलग्नक 'ग'

## वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 363	पुरुषों के लिए टू पीस सूट सैट (जैकेट + ट्राउज़र) लाइनिंग सहित	1 सैट	1क. फैब्रिक सॉलिड या 1ख. फैब्रिक स्ट्राइप/चैक 2. लाइनिंग फैब्रिक 3. पॉकेटिंग फैब्रिक 4. शोल्डर पैड्स 5. स्लीव हेड या स्लीव हेड के लिए फैल्ट और स्लीव हेड के लिए कैनवस 6. बॉडी फैल्ट 7. कैनवस 8. अण्डर कॉलर फैल्ट 9. वूबन फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग 10. नानवूबन फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग 11. नानवूबन नान फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग 12. आर्म होल टेप - 2-5 से.मी. 13. ब्रेक बाइण्ड 14. कॉलरबाइण्ड 15. डबल फ्यूजीबल नेट	5.25 वर्ग मीटर 5.72 वर्ग मीटर 3.15 वर्ग मीटर 1.15 वर्ग मीटर निवल + 1% निवल + 1% 0.15 वर्ग मीटर 0.1 वर्ग मीटर 0.25 वर्ग मीटर 0.65 वर्ग मीटर 0.10 वर्ग मीटर 1.00 वर्ग मीटर 1.00 वर्ग मीटर 0.10 वर्ग मीटर 2.60 मीटर 0.06 वर्ग मीटर 0.04 वर्ग मीटर 0.2 वर्ग मीटर

			16. लेबल 17. बटन 18. थ्रेड 19. टैग 20. लूपर 21. पॉलिबैग 22. हैन्गर 23. हैन्गर क्लिप 24. 2" तक लोगो टेप 25. 2" तक वेस्ट बैण्ड फ्यूजीबल 26. 1" तक लूप फ्यूजीबल 27. हुक और आई 28. पोलिबैग स्टिकर 29. ज़िपर 30. स्लाइडर 31. 2" तक वेस्ट बैण्ड या पॉकेटिंग डिस्क्रिप्शन का फैब्रिक 32. 1" चौड़ाई तक बैन रोल	निवल + 1% निवल + 1% 800 मीटर निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% 1.25 मीटर 1.5 मीटर 1.00 मीटर निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% 1.5 मीटर 0.2 वर्ग मीटर 1.5 मीटर
ज 364	पुरुषों का जैकेट (कोट) [सूट-टाइप] लाइनिंग सहित	1 नग	1क. फैब्रिक सॉलिड या 1ख. फैब्रिक स्ट्राइप/ चैक 2. लाइनिंग फैब्रिक 3. पॉकेटिंग फैब्रिक 4. शोल्डर पैड्स 5. स्लीव हेड या स्लीव हेड के लिए फैल्ट और स्लीव हेड के लिए कैनवस	3.00 वर्ग मीटर 3.45 वर्ग मीटर 2.40 वर्ग मीटर 0.50 वर्ग मीटर निवल + 1% निवल + 1% 0.15 वर्ग मीटर 0.1 वर्ग मीटर

			6. बॉडी फैल्ट 7. कैनवस 8. अण्डर कॉलर फैल्ट 9. वूबन फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग 10. नानवूबन फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग 11. नानवूबन नान फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग 12. आर्म होल टेप 2- 5 से.मी. 13. ब्रेक बाइण्ड 14. कॉलरबाइण्ड 15. डबल फ्यूजीबल नेट 16. लेबल 17. बटन 18. श्रेड 19. टैग 20. लूपर 21. पॉलिबैग 22. हैन्गर 23. हैन्गर क्लिप 24. पालीबैगस्टिकर	0.25 वर्ग मीटर 0.5 वर्ग मीटर 0.10 वर्ग मीटर 1.0 वर्ग मीटर 1.00 वर्ग मीटर 0.10 वर्ग मीटर 2.60 मीटर 0.03 वर्ग मीटर 0.04 वर्ग मीटर 0.2 वर्ग मीटर निवल + 1% निवल + 1% 400 मीटर निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1%
अ 365	पुरुषों के ट्राऊज़र (सूट टाइप) लाइनिंग सहित	1 नग	1क. फैब्रिक सॉलिड या 1ख. फैब्रिक स्ट्राइप/ चैक 2. लाइनिंग फैब्रिक 3. पॉकेटिंग फैब्रिक 4. नॉनवूबन फ्यूजीबल इन्टर लाइनिंग 5. ब्रेक बाइंड या पॉकेटिंग डिस्ट्रिप्शन का फैब्रिक 6. लेबल	2.25 वर्ग मीटर 2.6 वर्ग मीटर 0.75 मीटर 0.65 वर्ग मीटर 0.10 वर्ग मीटर 0.03 वर्ग मीटर 0.2 वर्ग मीटर निवल + 1%

			7. बटन 8. थ्रेड 9. टैग 10. लूपर 11. पॉलिबैग 12. हैन्गर 13. हैन्गर क्लिप 14. 2" तक लोगो टेप 15. कैनवस 16. वेस्ट बैन्ड फ्यूजीबल 17. 1" तक लूप फ्यूजीबल 18. हुक और आई 19. पॉलिबैग स्टिकर 20. ज़िपर 21. स्लाइडर 22. 2" तक वेस्ट बैण्ड 23. 1" चौड़ाई तक बैन रोल	निवल + 1% 400 मीटर निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% 1.50 मीटर 0.15 वर्ग मीटर 1.58 मीटर  1.0 मीटर  निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% निवल + 1% 1.5 मीटर  1.5 मीटर
अ 366	लड़कों के सूट सैट (कोट + पैन्ट) लाइनिंग सहित	1 सेट	1क. फैब्रिक सॉलिड या 1ख. फैब्रिक स्ट्राइप/ चैक 2. लाइनिंग फैब्रिक 3. पॉकेटिंग फैब्रिक 4. शोल्डर पैड्स 5. स्लीव हेड या स्लीव हेड के लिए फैल्ट या स्लीव हेड के लिए कैनवस 6. बॉडी फैल्ट 7. कैनवस 8. अण्डर कॉलर फैल्ट	4.2 वर्ग मीटर  4.72 वर्ग मीटर  2.40 वर्ग मीटर 0.9 वर्ग मीटर निवल + 1% निवल + 1%  0.15 वर्ग मीटर  0.1 वर्ग मीटर  0.2 वर्ग मीटर 0.50 वर्ग मीटर 0.10 वर्ग मीटर

		9. वूबन फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग	0.55 वर्ग मीटर
		10. नानवूबन फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग	1.00 वर्ग मीटर
		11. नानवूबन नान फ्यूजीबल इण्टरलाइनिंग	0.10 वर्ग मीटर
		12. आर्म होल टेप 2-5 से.मी.	2.4 मीटर
		13. ब्रेक बाइण्ड	
		14. कॉलरबाइण्ड	0.06 वर्ग मीटर
		15. डबल फ्यूजीबल नेट	0.04 वर्ग मीटर 0.2 वर्ग मीटर
		16. लेबल	
		17. बटन	निवल + 1%
		18. श्रेड	निवल + 1%
		19. टैग	600 मीटर
		20. लूपर	निवल + 1%
		21. पॉलिबैग	निवल + 1%
		22. हैन्गर	निवल + 1%
		23. हैन्गर क्लिप	निवल + 1%
		24. 2" तक लोगो टेप	निवल + 1%
		25. 2" तक वेस्ट बैण्ड फ्यूजीबल	1.25 वर्ग मीटर 1.4 मीटर
		26. 1" तक लूप फ्यूजीबल	1.37 मीटर
		27. हुक और आई	
		28. पोलिबैग स्टिकर	निवल + 1%
		29. ज़िपर	निवल + 1%
		30. स्लाइडर	निवल + 1%
		31. 2" तक वेस्ट बैण्ड	निवल + 1% 1.4 मीटर
		या पॉकेटिंग डिस्क्रिप्शन का फैब्रिक	0.2 वर्ग मीटर
		32. 1" चौड़ाई तक बैन रोल	1.4 मीटर





अ 368	लड़कों के ट्राऊज़र (सूट टाइप) लाइनिंग सहित	1 नग	<p>1क. फैब्रिक सॉलिड या</p> <p>1ख. फैब्रिक स्ट्राइप/ चैक</p> <p>2. लाइनिंग फैब्रिक</p> <p>3. पॉकेटिंग फैब्रिक</p> <p>4. नॉनवूवन फ्यूजीबल इन्टर लाइनिंग</p> <p>5. ब्रेक बाइंडिंग</p> <p>6. लेबल</p> <p>7. बटन</p> <p>8. थ्रेड</p> <p>9. टैग</p> <p>10. लूपर</p> <p>11. पॉलिबैग</p> <p>12. हैन्डर</p> <p>13. हैन्डर क्लिप</p> <p>14. 2" तक लोगो टेप</p> <p>15. कैनवस</p> <p>16. 2" तक के वेस्ट बैन्ड फ्यूजीबल</p> <p>17. 1" तक लूप फ्यूजीबल</p> <p>18. हुक और आई</p> <p>19. पॉलिबैग स्टिकर</p> <p>20. ज़िपर</p> <p>21. स्लाइडर</p> <p>22. 2" तक वेस्ट बैण्ड</p> <p>या</p> <p>पॉकेटिंग डिस्क्रिप्शन का फैब्रिक</p> <p>23. 1" चौड़ाई तक बैन रोल</p>	<p>1.8 वर्ग मीटर</p> <p>2.05 वर्ग मीटर</p> <p>0.65 मीटर</p> <p>0.6 वर्ग मीटर</p> <p>0.10 वर्ग मीटर</p> <p>0.03 वर्ग मीटर</p> <p>निवल + 1%</p> <p>निवल + 1%</p> <p>300 मीटर</p> <p>निवल + 1%</p> <p>निवल + 1%</p> <p>निवल + 1%</p> <p>निवल + 1%</p> <p>1.4 मीटर</p> <p>0.15 वर्ग मीटर</p> <p>1.4 मीटर</p> <p>1.0 मीटर</p> <p>निवल + 1%</p> <p>निवल + 1%</p> <p>निवल + 1%</p> <p>निवल + 1%</p> <p>1.4 मीटर</p> <p>0.2 वर्ग मीटर</p> <p>1.4 मीटर</p>
-------	--	------	---	---

## अनुलग्नक 'घ'

## विविध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ट 169	विभिन्न आकारों में थर्मल स्टेन्सिल मास्टर (फिनिशड फोम, प्रयोग में लाने के लिए तैयार)	1 वर्ग मीटर	1. जम्बो रोल्स में रेलिवेंट स्पेसीफिकेशन और जी एस एम का थर्मल स्टेन्सिल मास्टर	1.05 वर्ग मीटर
ट 170	विभिन्न आकारों में थर्मल ट्रान्स्फर रिबन बारकोड (फिनिशड फोम, प्रयोग में लाने के लिए तैयार)	1 वर्ग मीटर	1. जम्बो रोल्स में रेलिवेंट स्पेसीफिकेशन और जीएसएम के बार कोड के लिए थर्मल ट्रान्स्फर फिल्म	1.05 वर्ग मीटर

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 10th December, 2004

**No. 30/2004—2009**

**F. No. 01/87/171/00002/AM04/DES. VIII.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/deletions/corrections and additions in the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2002—2007, as amended.

2. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, (Vol.2) 2002-2007, as amended, amendments/corrections/ deletion at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice are made.

3 In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.A-3470, new entries at Sl. No. A-3471 to A-3490 are added as per Annexure "B" to this Public Notice.

## TEXTILE PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.J-362, new entries at Sl. No. J-363 to J-368 are added as per Annexure "C" to this Public Notice.

## MISCELLANEOUS PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.K-168, new entries at Sl. No. K-169 to K-170 are added as per Annexure "D" to this Public Notice.

This issues in public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade

## Annexure "A"

## AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	164 - 165	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A-1324	The norm covered by this entry is substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1324	Dimethyl Sulphate	1 kg	1. Methanol 2. Sulphur  OR Yellow crude sulphur (moisture content 3% max. carbon 0.5% max. and ash content 0.03% max.) 3. Alumina catalyst	0.561kg 0.279kg  0.290 kg  0.0002 kg
2.	210	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A-1699	The description of import item at Sl. Nos. 1 & 2, (without any change in quantity) is amended to read as under:- "1. Relevant Heat Resistant Rubber Thread / Spandex Yarn/ Lycra Elastic Thread 2. Polyester Yarn / Nylon Yarn /Cotton Yarn/ Spun Polyamide Yarn"	

3.	17	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A3010 (amended vide Public Notice No. 27 Dated:01/08/2002)	In the description of import item at SL. No.1, the following alternative import items (with quantity) are added:- “1. Glyoxalic Acid (50% - 2.53 kg strength) OR 1a) Glyoxal (40%) - 3.54 kg 1b) Nitric Acid (50%) - 2.15 Kg 1c) Hydrochloric Acid (30%) - 5.24 Kg”
----	----	--	--

4.	17	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A3011 (amended vide Public Notice No. 27 Dated:01/08/2002)	In the description of import item at SL. No.1, the following alternative import items (with quantity) are added:- “1. Glyoxalic Acid (50% - 1.54 kg strength) OR 1a) Glyoxal (40%) - 2.16 kg 1b) Nitric Acid (50%) - 1.32 kg 1c) Hydrochloric Acid (30%) - 3.18 kg”
----	----	--	--

5.	18	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A3280 (amended vide Public Notice No.38 Dated:09/01/2004)	The norm covered by this entry is substituted by the following:-
----	----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3280	Oryzalin Technical 98% Min.	1 kg	1. Potassium-4-Chloro 3,5 Nitro Benzene Sulphonate 2. Di-N-Propyl Amine 3. Thionyl Chloride 4. Dimethyl Formamide 5. Benzene	1.340 kg. 0.490 kg. 0.720 kg. 0.088 kg. 2.000 kg.

6.	25	<b>Chemical &amp; Allied Product</b> Sl.No.A3414 (amended vide Public Notice No.11 Dated: 01/10/2004)	The quantity of import item at Sl. No. 1, is amended to read as under:- “1. Nickel Metal - 0.0625 kg”
----	----	---	--

7.	907	<b>Food Product</b> Sl.No.E-1	The norm covered by this entry is substituted by the following:-
----	-----	----------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
E-1	Assorted Confectionery	100 kg	1(a) Sugar OR  *(b) Starch / Modified Starch/ Gelatin 2. Intense Sweeteners* any one of the following: i) Saccharin Sodium OR ii) Aspartame (Methyl Ester) OR iii) Acesulfame Potassium 1. Liquid Glucose 2. Citric Acid 3. i) Flavours/ Essential Oils ii) Food Colours 4. Emulsifiers/ Glazing Agents/ Binders/ Thickeners 5. Packing materials a) BOPP/HDPE / PP / LDPE b) Paper / Paper Board	66 kg  66 kgs.  300 gms. 1 kg 350 gms. 28 kgs 3 kgs 500 gms 10 gms 100 gms  As per packing Policy

Note : \* Item 1(b) and intense sweeteners shall be permitted only for Sugar Free confectionery. Items 1(a) and 1 (b) shall not be permitted for import for manufacture of Sugar Free confectionery.

8.	907	<u>Food Product</u> Sl.No.E-5	The norm covered by this entry is substituted by the following:-
----	-----	----------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
E-5	Biscuits	1 kg	1. Maida /Atta / Flour 2. Sugar OR Liquid Sugar 3. Vegetable Shortenings / Cream / Fats/Spray Fats 4. Skimmed Milk Powder Additives and Other bakery ingredients 5. Additives and Other bakery ingredients:- a) Invert Sugar / Liquid Glucose b) Leavening Agent c) Emulsifier d) Food Flavour e) Dry Fruits* (Optional) 6. Packing Materials:- (a) BOPP/ HDPE/ PP/ LDPE (b) Paper and Paper Board	0.550 kg 0.210 kg 0.338 kg 0.180 kg 0.010 kg 0.040 kg 0.015 kg 0.005 kg 0.002 kg 3% by weight As per packing Policy As per packing Policy

Note: \*Dry fruits (Optional) 3% by weight with accountability in export may also be allowed for certain variety.

9.	933	<u>Leather Products</u> Sl.No.G-12	The description of export product (without any change in quantity) is amended to read as under:- <b>"Gents Leather sandals with P.U.            sole/Rubber Sole/PVC Sole/Unit sole"</b>
10.	30 - 31	<u>Plastic Product</u> Sl.No.H-15 (amended vide Public Notice No. 03 Dated:31.03.2003)	The norm covered by this entry is substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H-15	Additive Master Batches	1 kg	1. Relevant <del>Polymers</del> such as Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene, Polyester (PET/PBT), EVA 2. Relevant Additive i.e. a) UV Stabilizer b) Anti Block Agent c) Antistatic Agent d) Slip Agent e) Antioxidant	1.03 kg/kg content in the export product  1.03 kg/kg content in the export product
Note: The additives indicated at import item 2 will not be more than 20% (by weight) of export and only relevant additives as required/ used in the export product should be allowed for import.				

11.	963	<u>Plastic Product</u> Sl.No.H-16	The norm covered by this entry stands deleted.
12.	31	<u>Plastic Product</u> Sl.No.H-54 (amended vide Public Notice No. 03 Dated:31.03.2003)	The norm covered by this entry is substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H-54	Colour Master Batches	1 kg	1. Relevant Polymers such as Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene, Polyester (PET/PBT) EVA 2. Titanium Dioxide 3. Relevant Colour Pigment / Dyes 4. Optional Brightener 5. Relevant PP/ PE/ Montan Wax	1.03 kg/kg content in the export product  1.03 kg/kg content in the export product 1.03 kg/kg content in the export product 1.03 kg/kg content in the export product 1.03 kg/kg content in the export product

13.	1024 - 1025	<u>Plastic Product</u> Sl.No.H-346	The norm covered by this entry stands deleted.
14.	1057 - 1058	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-12	The import item at Sl. No. 3, (with quantity) stands deleted.
15.	1060	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-30	The import item at Sl. No. 1, (with quantity) stands deleted.
16.	1060	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-31	The import item at Sl. No. 1, (with quantity) stands deleted.
17.	1061	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-32	The import item at Sl. No. 1, (with quantity) stands deleted.
18.	1061	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-33	The import item at Sl. No. 1, (with quantity) stands deleted.
19.	1062	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-34	The import item at Sl. No. 1, (with quantity) stands deleted.
20.	27	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-49 (amended vide Public Notice No. 66 Dated:04.03.2003)	The import item at Sl. No. 2, (with quantity) stands deleted.
21.	27	<u>Sports Goods</u> Sl.No.I-50 (amended vide Public Notice No. 66 Dated:04.03.2003)	The import item at Sl. No. 2, (with quantity) stands deleted.



## Annexure "B"

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3471	Di Calcium Phosphate Anhydrous	1 kg	1. Phosphoric Acid 85%	0.890 kg.
A3472	Amorphous Cefuroxime Axetil	1 kg	1. 7-amino cephalosporanic acid (7-ACA) 2. Activated Carbon 3. (z)-2 Methoxyimino-(Furyl-2-yl) Acetic Acid Ammonium Salt 4. Chlorosulfonyl Isocyanate 5. Dimethyl Formamide (DMF) 6. Liquid Bromine 7. Tetrahydrofuran / Acetonitrile 8. Acetone 9. Isopropyl Alcohol 10. Methylene Chloride 11. Cyclohexane 12. Triethylamine 13. Tetraline 14. N,N-Dimethyl Acetamide 15. Dicyclohexylamine 16. Methanol 17. Sodium Dithionite 18. Oxalyl Chloride	1.20 kg. 0.100 kg. 0.96 kg. 0.66 kg. 0.41 kg. 1.422 kg. 1.56 kg. 2.256 kg. 0.40 kg. 3.25 kg. 2.57 kg. 0.96 kg. 0.49 kg. 1.79 kg. 0.44 kg. 3.69 kg. 0.0054 kg. 0.68 kg.
A3473	Sodium Cyanate	1 kg	1. Soda Ash	0.860 kg.

A3474	Pigment Phthalocyanine Blue 15:3	1 kg	1. Phthalocyanine Blue Crude (C.I. No. 74160) (purity 96% minimum)	1.072 kg.
A3475	Phenoxy Acetic Acid	1 kg	1. Phenol 2. Mon Chloro Acetic Acid 3. Caustic Soda 4. Soda Ash	0.820 kg. 0.807 kg. 0.382 kg. 0.724 kg.
A3476	N-Methylol Stearamide	1 kg	1. Stearic Acid (Stearic Acid content: 50 +/-10%) (Stearic Acid+Palmitic Acid content: 90% min.)	1.061 kg.
A3477	Pigment Red 48:3 (C.I. No. 15865:3)	1 kg	1. 2 B Acid 2. Bond Acid 3. Sodium Nitrite 4. Caustic Soda	0.438 kg 0.383 kg 0.138 kg 0.279 kg
A3478	Heat Resistant Latex Rubber Thread – Coloured	1 MT	1. Latex Rubber Dry OR Latex Rubber (60% DRC Wet) <b>2. Rubber Accelerator</b> 2(i) ZMBT 2(ii) Heptenbase 2(iii) ZDBC <b>3. Antiozoncent</b> (i) MC Wax (ii) Lowinox <b>4. Antioxidant</b> Wingstay L/Rolox LC/Irganox 1010/ Butylated Reaction product of p-cresol and Di cyclo powder	818.68 kg 1364.47 kg  8.80 kg 0.60 kg 1.80 kg  2.6 kg 1.8 kg  18.00 kg

			5. Dispersing Agent (sodium Metholxyalate) water soluble	0.6 kg
			6. Rubber Pigment (Fluorescent colour)	75.00 kg
			7. Talcum Powder OR Silicone Emulsion (For Silicone coated product)	10 kg
			8. Bactericide (Sodium O- Phenyl Phenolic)	0.50 kg
			9. Stabilizer (Oleic Acid)	6.00 kg
			10. Filler (Titanium Oxide)	55.00 kg
			11. Activator (Zinc Oxide)	24.86 kg
			12. Nylon Filter Bag – 50 mic	4 Numbers
			Nylon Filter Bags – 250 mic	4 Numbers
			Nylon Cloth (82 X 85 cm)	8 Numbers
			13. Paper for Cartons	As per the Packing Policy
			14. Emulsifier (Carboxy Methyl Cellulose)	0.06 kg
			15. Coagulant (Acetic Acid)	160 kg
			16. Chloroprene Latex Dry OR Chloroprene Latex wet	98 kg  163.38 kg

A3479	Ethoxylated Lauryl Alcohol 2 moles	1 kg	1. a) Lauryl Alcohol b) Ethylene Oxide	0.693 kg 0.323 kg
A3480	Ethoxylated Lauryl Alcohol 3 moles	1 kg	1. a) Lauryl Alcohol b) Ethylene Oxide	0.569 kg 0.419 kg
A3481	PVC Stabilizer PA-804 (Lead content 38+/-1%) containing: Tribasic Lead Sulphate 25+/-1%, Dibasic Lead Stearate + Lead Stearate mixture 42+/-1%, Wax 33+/-1%	1 kg	1. Lead Ingots 2. Stearic Acid (Stearic Acid content 50+/-10%) Stearic Acid + Palmitic Acid content 90% min.) 3. Paraffin Wax	0.375 kg 0.274 kg  0.330 kg
A3482	Meta Phenylene Diamine	1 kg	1. Benzene	1.100 kg
A3483	Cast Polyurethane Wheels with Steel/Cast Iron cores and Ball bearing (Polyurethane content up to maximum of 25+/-1% by weight)	1 No.	1. Polyurethane Prepolymer 2. Polyol Curing Agent 3. Polyurethane to Metal Adhesive 4. Colour Pigment 5. Relevant Ball Bearing	0.920 kg 0.166 kg 0.011 kg 0.014 kg Net to Net
A3484	Benzathine Penicillin G	1 kg	1. Pencillin G Potassium First Crystals 2. N,N, Dibenzyl Ethylene Diamine Diacetate 3. Soyalecithin 4. Isopropyl Alcohol	1.262 BOU/kg  0.388 kg 0.058 kg 1.942 kg

A3485	8-Choloro-10,11 Dihydro-4-Aza- Dibenzo (A,D)- Cycloheptan-5-One	1 kg	1. Meta Chloro Benzyl Cyanide 2. Methyl Nicotamide 3. Hydrazine Hydrate 4. N,N-Dimethyl Carbomyl Chloride 5. Potassium Carbonate 6. Dimethyl Sulphoxide 7. Dichloro Methane	1.80 kg 4.00 kg. 1.26 kg. 2.20 kg. 2.15 kg. 4.50 kg. 9.70 kg.
A3486	Cineole	1 kg	1. Eucalyptus Oil	1.30 Kg
A3487	(1,2 Ethandiylbis (Oxy) bis Methanol)/1,6 Dihydroxy Dioxahaxane	1 kg	1. Para formaldehyde (92%Min.)	0.543 Kgm.
A3488	Paracetamol	1 kg	1. Para Amino Phenol 2. Acetic Anhydride	0.77 Kg. 0.72 Kg.
A3489	Synthetic Tanning Agent (Neo syn 5WB) \ Containing Sodium Salt of Phenol Sulphonic Acid Polymer with Formaldehyde and Urea (53%) Disodium Phthalate (12%)	1 kg	1. Phenol	0.217 kgm.
A3490	Amiloride Hydrochloride BP/USP	1 kg	1. Cyanoacetic Acid 2. Guanidine Hcl 3. Sodium Dithionite 4. Sodium Methoxide 5. Glyoxal (40%Solution) 6. Dimethyl Formamide 7. Acetonitrile 8. Methanol	2.10 Kg. 0.40 Kg. 3.43 Kg. 0.22 Kg. 1.83 Kg. 2.23 Kg. 0.77 Kg. 2.25 Kg.

## Annexure "C"

## TEXTILE PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J363	Men's Suit Set of Two Piece (Jacket + Trouser) with lining	1 Set	1a. Fabric Solid OR 1b. Fabric Stripe/Check 2. Lining Fabric 1. Pocketing Fabric 2. Shoulder Pads 3. Sleeve head OR Felt for Sleeve head & Canvas for Sleeve head 4. Body felt 5. Canvas 6. Under Collar felt 7. Woven Fusible interlining 8. Non-woven fusible inter-lining 9. Non-woven non-fusible interlining 10. Arm Hole Tape 2-5cm 11. Brakebind 12. Collarbind 13. Double fusible net 14. Label 15. Button 16. Thread 17. Tag 18. Looper 19. Polybag	5.25 Sq.mtr.  5.72 Sq.mtr. 3.15 Sq. mtr. 1.15 Sq.mtr. Net +1% Net +1%  0.15 Sq.mtr. ----- 0.1 Sq.mtr.  0.25 Sq.mtr. 0.65 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 1.00 Sq.mtr. 1.00 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 2.60 mtr. 0.06 Sq.mtr. 0.04 Sq.mtr. 0.2 Sq.mtr. Net+1% Net+1% 800 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1%

			20.Hanger 21.Hanger Clip 22.Logo tape upto 2" 23.Waist Band fusible upto 2" 24.Loop Fusible upto 1" 25.Hook & Eye 26.Polybag Sticker 27.Zipper 28.Slider 29.Waist Band upto 2"  OR  Fabric of pocketing description 30.Ban roll upto 1"width	Net+1% Net+1% 1.25 Mtr. 1.5 Mtr.  1.00 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% 1.5 Mtr  ----- 0.2 Sq.mtr 1.5 Mtr
J364	Men's Jacket (Coat) [suit-type] with lining	1 Piece	1a. Fabric Solid OR 1b. Fabric Stripe/Check 2. Lining Fabric 3. Pocketing Fabric 4. Shoulder Pads 5. Sleeve head OR Felt for Sleeve head & Canvas for Sleeve head 6. Body felt 7. Canvas 8. Under Collar felt 9. Woven Fusible interlining 10.Non-woven fusible inter-lining	3.00 Sq.mtr.  3.45 Sq.mtr.  2.40 Sq. mtr. 0.50 Sq.mtr. Net +1% Net +1%  0.15 Sq.mtr. ----- 0.1 Sq.mtr.  0.25 Sq.mtr. 0.5 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 1.0 Sq.mtr. 1.00 Sq.mtr.

			11. Non-woven non-fusible interlining 12. Arm Hole Tape 2-5cm 13. Brakebind 14. Collarbind 15. Double fusible net 16. Label 17. Button 18. Thread 19. Tag 20. Looper 21. Polybag 22. Hanger 23. Hanger Clip 24. Polybag Sticker	0.10 Sq.mtr. 2.60 mtr. 0.03 Sq.mtr. 0.04 Sq.mtr. 0.2 Sq.mtr. Net+1% Net+1% 400 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% Net+1%
J365	Men's Trousers (Suit-Type) with lining	1 Piece	1a. Fabric Solid OR 1b. Fabric Stripe/Check 2. Lining Fabric 3. Pocketing Fabric 4. Non-woven fusible inter-lining 5. Breakebind OR Fabric of Pocketing description 6. Label 7. Button 8. Thread 9. Tag 10. Looper 11. Polybag 12. Hanger 13. Hanger Clip 14. Logo Tape upto 2" 15. Canvas 16. Waist band fusible 17. Loop Fusible upto 1" 18. Hook & eye 19. Polybag Sticker	2.25 Sq.mtr. 2.6 Sq.mtr. 0.75 Mtr. 0.65 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 0.03 Sq.mtr. ----- 0.2 Sq.mtr. Net+1% Net+1% 400 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% 1.50 Mtr. 0.15 Sq.mtr. 1.58 Mtr. 1.0 Mtr. Net+1% Net+1%



			20. Zipper 21. Slider 22. Waist band upto 2" 23. Ban roll upto 1" width	Net+1% Net+1% 1.5 Mtr. 1.5 Mtr.
J366	Boy's Suit Set (Coat + Pant) with lining	1 Set	1a. Fabric Solid OR 1b. Fabric Stripe/ Check 2. Lining Fabric 3. Pocketing Fabric 4. Shoulder Pads 5. Sleeve head OR Felt for Sleeve head & Canvas for Sleeve head 6. Body felt 7. Canvas 8. Under Collar felt 9. Woven Fusible interlining 10. Non-woven fusible inter-lining 11. Non-woven non- fusible interlining 12. Arm Hole Tape 2- 5cm 13. Brakebind 14. Collarbind 15. Double fusible net 16. Label 17. Button 18. Thread 19. Tag 20. Looper 21. Polybag 22. Hanger 23. Hanger Clip 24. Logo tape upto 2" 25. Waist Band fusible upto 2"	4.2 Sq.mtr. 4.72 Sq.mtr. 2.40 Sq. mtr. 0.9 Sq.mtr. Net +1% Net +1% 0.15 Sq.mtr. ----- 0.1 Sq.mtr. 0.2 Sq.mtr. 0.50 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 0.55 Sq.mtr. 1.00 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 2.4 mtr. 0.06 Sq.mtr. 0.04 Sq.mtr. 0.2 Sq.mtr. Net+1% Net+1% 600 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% 1.25 Mtr. 1.4 Mtr.

			26. Loop Fusible upto 1" 27. Hook & Eye 28. Polybag Sticker 29. Zipper 30. Slider 31. Waist Band upto 2"  OR  Fabric of pocketing description 32. Ban roll upto 1"width	1.37 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% 1.4 Mtr ----- 0.2 Sq.mtr 1.4 Mtr
J367	Boy's Jacket(Coat) (Suit-type) with lining	1 Piece	1a. Fabric Solid OR 1b. Fabric Stripe/ Check 2. Lining Fabric 3. Pocketing Fabric 4. Shoulder Pads 5. Sleeve head OR Felt for Sleeve head & Canvas for Sleeve head 6. Body felt 7. Canvas 8. Under Collar felt 9. Woven Fusible interlining 10. Non-woven fusible inter-lining 11. Non-woven non-fusible interlining 12. Arm Hole Tape 2-5cm 13. Brakebind 14. Collarbind 15. Double fusible net 16. Label 17. Button	2.4 Sq.mtr. 2.75 Sq.mtr. 2.00 Sq. mtr. 0.4 Sq.mtr. Net+1% Net +1% 0.12 Sq.mtr. ----- 0.1 Sq.mtr. 0.25 Sq.mtr. 0.4 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 0.8 Sq.mtr. 0.8 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 2.5 mtr. 0.03 Sq.mtr. 0.04 Sq.mtr. 0.2 Sq.mtr. Net+1% Net+1%

			18.Thread 19.Tag 20.Looper 21.Polybag 22.Hanger 23.Hanger Clip 24.Polybag Sticker 25.Zipper	300 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% Net+1%
J368	Boy's Trouser (Suit-type) with lining	1 Piece	1a. Fabric Solid OR 1b. Fabric Stripe/ Check 2. Lining Fabric 3. Pocketing Fabric 4. Non-woven fusible inter-lining 5. Brakebind 6. Label 7. Button 8. Thread 9. Tag 10.Looper 11.Polybag 12.Hanger 13.Hanger Clip 14.Logo Tape upto 2" 15.Canvas 16.Waist band fusible upto 2" 17.Looped Fusible upto 1" 18.Hook & eye 19.Polybag Sticker 20.Zipper 21.Slider 22.Waist band upto 2" OR Fabric of Pocketing Description 23.Ban roll upto 1" width	1.8 Sq.mtr. 2.05 Sq.mtr. 0.65 Mtr. 0.6 Sq.mtr. 0.10 Sq.mtr. 0.03 Sq.mtr. Net+1% Net+1% 300 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% Net+1% 1.4 Mtr. 0.15 Sq.mtr. 1.4 Mtr. 1.0 Mtr. Net+1% Net+1% Net+1% 1.4 Mtr. ----- 0.2 Sq.mtr. 1.4 Mtr.

**Annexure “D”****MISCELLANEOUS PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
K169	Thermal stencil master in various sizes (finished form, ready to use condition)	1 Sq. meter	1. Thermal stencil master of relevant specification and GSM in Jumbo rolls	1.05 sq. meter
K170	Thermal Transfer Ribbon Barcode in various sizes (finished form, ready to use condition)	1 Sq. meter	1. Thermal Transfer Film for Bar Code of relevant specification and GSM in Jumbo Rolls	1.05 sq. meter

\*\*\*\*\*